

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च 2024—चैत्र 2 शक 1946

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, समाहांत बुधवार, दिनांक 15-11-2023

1. मौसम एवं वर्षा.— राज्य में मौसम सामान्य रहा वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

| क्र. | जिला | तहसील | | | | |
|------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| | | 1. मि.मी. से 17.4 मि.मी. तक | 17.5 मि.मी. से 34.9 मि.मी. तक | 35.0 मि.मी. से 53.1 मि.मी. तक | 53.2 मि.मी. से 249.9 मि.मी. तक | 250.0 मि.मी. से अधिक |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | रायपुर | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| 2. | बलौदाबाजार | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| 3. | गरियाबंद | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| 4. | महासमुन्द | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| 5. | धमतरी | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| 6. | दुर्ग | अप्राप्त | अप्राप्त | अप्राप्त | अप्राप्त | अप्राप्त |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 7. | बेमेतरा | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| 8. | बालोद | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| 9. | राजनांदगांव | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| 10. | खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| 11. | मोहला-मानपुर- अम्बागढ़-चौकी | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| 12. | कबीरधाम | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| 13. | बस्तर | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| 14. | कोण्डागांव | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| 15. | नारायणपुर | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| 16. | कांकेर | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| 17. | दंतेवाड़ा | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| 18. | सुकमा | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| 19. | बीजापुर | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| 20. | बिलासपुर | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| 21. | गौरेला-पेण्ड्रा- मरवाही | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| 22. | मुंगेली | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| 23. | जांजगीर-चांपा | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| 24. | सक्ती | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| 25. | कोरबा | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| 26. | सरगुजा | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| 27. | सूरजपुर | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| 28. | बलरामपुर | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| 29. | कोरिया | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 30. | मनेन्द्रगढ़- चिरमिरी-भरतपुर | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| 31. | रायगढ़ | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| 32. | सारंगढ़-बिलाईगढ़ | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| 33. | जशपुर | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |

2. **जुताई, बोनी एवं रोपाई** .— कुछ जिलों में रबी फसल की जुताई, का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.

3. **सिंचाई** .— बेमेतरा, बलरामपुर, सूरजपुर में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.

4. **कटाई** .— फसल की कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.

5. **फसल स्थिति** .— जिला रायपुर व धमतरी में फसल की हालत सुधरी है. जिला गरियाबंद, महासमुंद, बेमेतरा, राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, कांकेर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, मुंगेली, जांजगीर-चाम्पा, सक्ती, कोरबा में फसल की हालत सामान्य है. जिला बस्तर, कोण्डागांव व सुकमा में धान, मक्का व अन्य फसल की हालत सामान्य है. जिला नारायणपुर में धान, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी, अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी, तिल, रामतिल व गन्ना फसल की हालत सामान्य है. जिला दंतेवाड़ा में धान, मक्का, कोदो-कुटकी, मड़िया, सावां, मूंगफली, तिल, ज्वार, अम्बाड़ी, सन, तुअर, उड़द, मूंगमोट एवं कुल्थी फसल की हालत सामान्य है. जिला बीजापुर में धान फसल की हालत सामान्य है. जिला सरगुजा में धान, मक्का, उड़द व अरहर फसल की हालत सामान्य है. जिला सूरजपुर में धान, मक्का, अरहर, उड़द व मूंगफली फसल की हालत सामान्य है. जिला बलरामपुर में धान, मक्का, मूंगफली, उड़द व अरहर फसल की हालत सामान्य है. जिला कोरिया में धान, मक्का, कोदो-कुटकी, अरहर, उड़द, कुल्थी, मूंगफली, तिल, रामतिल, राई-सरसों व अन्य फसल की हालत सामान्य है. जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में धान, मक्का, अरहर, उड़द, कोदो-कुटकी, तिल, रामतिल, कुल्थी व राई की हालत सामान्य है. जिला कोरिया में धान मक्का, कोदो-कुटकी, अरहर, उड़द, कुल्थी, मूंगफली, तिल, रामतिल व अन्य फसल की हालत सामान्य है. जिला रायगढ़ में धान, मूंगफली, मूंग, उड़द, तुअर, तिल, अम्बाड़ी, गन्ना व कुल्थी फसल की हालत सुधरी है. जिला जशपुर में धान, मूंगफली व तुअर फसल की हालत सामान्य है.

6. **चारा** .— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

7. **बीज प्राप्ति** .— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

8. **खेतीहर श्रमिक** .— खेतीहर श्रमिक सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 15-11-2023

| जिला/तहसील | 1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि.मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक. | 2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर. | 3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी (ब) प्रतिशत. | 5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति. | 7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति. |
|-----------------------|---|---|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जिला-रायपुर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. रायपुर | .. | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. धरसीवा | .. | | 4. (1) फसल की हालत सुधरी है. (2) .. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. आरंग | .. | | | | |
| 4. मंदिर हसौद | .. | | | | |
| 5. अभनपुर | .. | | | | |
| 6. गोबरानवापारा | .. | | | | |
| 7. तिल्दा | .. | | | | |
| 8. खरोरा | .. | | | | |
| जिला-बलौदा- | मिलीमीटर | | | | |
| बाजार-भाटापारा | | | | | |
| 1. बलौदाबाजार | .. | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. पलारी | .. | | 4. (1) .. (2) .. | 6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. लवन | .. | | | | |
| 4. भाटापारा | .. | | | | |
| 5. सिमगा | .. | | | | |
| 6. सुहेला | .. | | | | |
| 7. कसडोल | .. | | | | |
| 8. टुण्डरा | .. | | | | |
| 9. सोनाखान | .. | | | | |
| जिला-गरियाबंद | मिलीमीटर | | | | |
| बिन्धानवागढ़ | | | | | |
| 1. गरियाबंद | .. | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. राजिम | .. | | 4. (1) खरीफ फसल की कटाई का कार्य जारी है एवं फसल की हालत सामान्य है. (2) .. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. छुरा | .. | | | | |
| 4. मैनपुर | .. | | | | |
| 5. देवभोग | .. | | | | |
| 6. अमलीपदर | .. | | | | |
| जिला-महासमुन्द | मिलीमीटर | | | | |
| 1. महासमुन्द | .. | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. पिथौरा | .. | | 4. (1) फसल की हालत सामान्य है. (2) .. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. बागबाहरा | .. | | | | |
| 4. सरायपाली | .. | | | | |
| 5. बसना | .. | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--|----------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|
| जिला-धमतरी | मिलीमीटर | | | | |
| 1. धमतरी | .. | 2. धान की खड़ी फसल पर | 3. .. | 5. .. | 7. पर्याप्त. |
| 2. कुरुद | .. | तनाछेदक व भूराभाहो बीमारी | 4. (1) धान फसल की कटाई का कार्य | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. मगरलोड | .. | होने की जानकारी | जारी है एवं फसल की हालत सुधरी है. | चारा पर्याप्त. | |
| 4. नगरी | .. | प्राप्त हो रही है. | (2) .. | | |
| 5. भखारा | .. | | | | |
| 6. कुकरेल | .. | | | | |
| 7. बेलरगांव | .. | | | | |
| *जिला-दुर्ग | मिलीमीटर | | | | |
| 1. दुर्ग | .. | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. .. |
| 2. धमधा | .. | | 4. (1) .. | 6. .. | 8. .. |
| 3. पाटन | .. | | (2) .. | | |
| जिला-बेमेतरा | मिलीमीटर | | | | |
| 1. थानखम्हरिया | .. | 2. कीट प्रकोप की शिकायत | 3. .. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. साजा | .. | है उपचार जारी है. | 4. (1) धान की कटाई का कार्य जारी | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. देवकर | .. | | है, फसल की हालत सामान्य | चारा पर्याप्त. | |
| 4. बेरला | .. | | है. | | |
| 5. भिभौरी | .. | | (2) .. | | |
| 6. बेमेतरा | .. | | | | |
| 7. नवागढ़ | .. | | | | |
| 8. नांदघाट | .. | | | | |
| जिला-बालोद | मिलीमीटर | | | | |
| 1. बालोद | .. | 2. रबी फसल की बोनी का | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. गुरूर | .. | कार्य जारी है. | 4. (1) .. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. गुण्डरदेही | .. | | (2) .. | चारा पर्याप्त. | |
| 4. डौण्डी | .. | | | | |
| 5. डौण्डीलोहारा | .. | | | | |
| 6. अर्जुन्दा | .. | | | | |
| 7. देवरी | .. | | | | |
| जिला-राजनांदगांव | मिलीमीटर | | | | |
| 1. डोंगरगढ़ | .. | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. लाल बहादुर नगर | .. | | 4. (1) खरीफ फसल की कटाई का कार्य | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. राजनांदगांव | .. | | जारी है फसल की हालत सामान्य | चारा पर्याप्त. | |
| 4. छुरिया | .. | | है. | | |
| 5. डोंगरगांव | .. | | (2) .. | | |
| जिला-खैरागढ़- छुईखदान-गण्डई | मिलीमीटर | | | | |
| 1. खैरागढ़ | .. | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. छुईखदान | .. | | 4. (1) फसल की हालत सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, | 8. पर्याप्त. |
| 3. गण्डई | .. | | (2) .. | चारा पर्याप्त. | |
| 4. सालहेवारा | .. | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---------------------------------------|----------|--|--|------------------------------|--------------|
| जिला-मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी | मिलीमीटर | | | | |
| 1. अं.चौकी | .. | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. मोहला | .. | | 4. (1) खरीफ फसल की कटाई का कार्य जारी है फसल की हालत सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. मानपुर | .. | | | | |
| 4. औंधी | .. | | | | |
| 5. खड़गांवां | .. | | (2) .. | | |
| जिला-कवर्धा-कबीरधाम | मिलीमीटर | | | | |
| 1. कवर्धा | .. | 2. रबी फसल की जुताई एवं बोनी का कार्य जारी है, एवं खड़ी फसल पर छुटपुट कीट प्रकोप की शिकायत है. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. पंडरिया | .. | | 4. (1) .. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. बोडला | .. | | (2) .. | | |
| 4. सहसपुरलोहारा | .. | | | | |
| 5. रेंगाखारकला | .. | | | | |
| 6. कुंडा | .. | | | | |
| 7. पिपरिया | .. | | | | |
| जिला-बस्तर | | | | | |
| 1. जगदलपुर | .. | 2. रबी फसल की बोनी व रोपाई का कार्य जारी है. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. नानगुर | .. | | 4. (1) खरीफ फसल की कटाई का कार्य जारी है, धान मक्का व अन्य फसल की हालत सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. बस्तर | .. | | (2) उपरोक्त फसलें सामान्य हैं. | | |
| 4. भानपुरी | .. | | | | |
| 5. बकावण्ड | .. | | | | |
| 6. लोहण्डीगुड़ा | .. | | | | |
| 7. बास्तानार | .. | | | | |
| 8. तोकापाल | .. | | | | |
| 9. दरभा | .. | | | | |
| जिला-कोण्डागांव | मिलीमीटर | | | | |
| 1. कोण्डागांव | .. | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. पर्याप्त. |
| 2. मर्दापाल | .. | | 4. (1) धान व मक्का फसल की कटाई का कार्य जारी है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. माकड़ी | .. | | (2) .. | | |
| 4. फरसगांव | .. | | | | |
| 5. केशकाल | .. | | | | |
| 6. धनोरा | .. | | | | |
| 7. बड़ेराजपुर | .. | | | | |
| जिला-नारायणपुर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. नारायणपुर | .. | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. छोटेडोंगर | .. | | 4. (1) धान, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी, अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी, तिल, रामतिल व गन्ना फसल की हालत सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. ओरछा | .. | | (2) उपरोक्त फसलें सामान्य हैं. | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|----------|-------|---|------------------------------|--------------|
| जिला-कांकेर- उत्तर बस्तर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. कांकेर | .. | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. भानुप्रतापपुर | .. | | 4. (1) खरीफ फसल की कटाई का कार्य जारी है एवं फसल की हालत सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. दुर्गकोन्दल | .. | | (2) .. | | |
| 4. चारामा | .. | | | | |
| 5. अन्तागढ़ | .. | | | | |
| 6. पखांजूर | .. | | | | |
| 7. नरहरपुर | .. | | | | |
| 8. सरोना | .. | | | | |
| जिला-दंतेवाड़ा- दक्षिण बस्तर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. दंतेवाड़ा | .. | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. पर्याप्त. |
| 2. गीदम | .. | | 4. (1) धान, मक्का, कोदो-कुटकी, मड़िया, सावां, मूंगफली, तिल, ज्वार, अम्बाड़ी, सन, तुअर, उड़द, मूंगमोठ व कुल्थी फसल की हालत सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. कुआकोण्डा | .. | | (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है. | | |
| 4. कटेकल्याण | .. | | | | |
| 5. बड़ेबचेली | .. | | | | |
| 6. बारसूर | .. | | | | |
| जिला-सुकमा | मिलीमीटर | | | | |
| 1. छिन्दगढ़ | .. | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. सुकमा | .. | | 4. (1) धान व मक्का फसल की हालत सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. गादीरास | .. | | (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है. | | |
| 4. कोन्टा | .. | | | | |
| 5. तोंगपाल | .. | | | | |
| जिला-बीजापुर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. बीजापुर | .. | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. गंगालूर | .. | | 4. (1) धान फसल की हालत सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. भैरमगढ़ | .. | | (2) .. | | |
| 4. कुटरू | .. | | | | |
| 5. भोपालपटनम् | .. | | | | |
| 6. उसूर | .. | | | | |
| जिला-बिलासपुर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. बिलासपुर | .. | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. बिल्हा | .. | | 4. (1) .. | 6. संतोषप्रद | 8. पर्याप्त. |
| 3. मस्तूरी | .. | | (2) .. | चारा पर्याप्त. | |
| 4. तखतपुर | .. | | | | |
| 5. कोटा | .. | | | | |
| 6. सीपत | .. | | | | |
| 7. बोदरी | .. | | | | |
| 8. बेलगहना | .. | | | | |
| 9. बेलतरा | .. | | | | |
| 10. रतनपुर | .. | | | | |
| 11. सकरी | .. | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--|----------|-------|--|------------------------------|--------------|
| जिला-गौरेला पेण्ड्रा-मरवाही | मिलीमीटर | | | | |
| 1. पेण्ड्रारोड | .. | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. पेण्ड्रा | .. | | 4. (1) धान फसल की कटाई का कार्य जारी है. फसल की हालत सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. मरवाही | .. | | (2) .. | | |
| 4. सकोला | .. | | | | |
| जिला-मुंगेली | मिलीमीटर | | | | |
| 1. मुंगेली | .. | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. पथरिया | .. | | 4. (1) धान फसल की कटाई का कार्य जारी है. फसल की हालत सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. लोरमी | .. | | (2) .. | | |
| 4. लालपुर | .. | | | | |
| जिला-जांजगीर- चाँपा | मिलीमीटर | | | | |
| 1. जांजगीर | .. | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. अकलतरा | .. | | 4. (1) धान फसल की कटाई का कार्य जारी है, फसल की हालत सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. बलौदा | .. | | (2) .. | | |
| 4. नवागढ़ | .. | | | | |
| 5. पामगढ़ | .. | | | | |
| 6. चाम्पा | .. | | | | |
| 7. शिवरीनारायण | .. | | | | |
| 8. बम्हनीडीह | .. | | | | |
| 9. सारागांव | .. | | | | |
| जिला-सक्ती | मिलीमीटर | | | | |
| 1. सक्ती | .. | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. जैजेपुर | .. | | 4. (1) फसल की हालत सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. मालखरौदा | .. | | (2) .. | | |
| 4. डभरा | .. | | | | |
| 5. नया बाराद्वार | .. | | | | |
| 6. अडभार | .. | | | | |
| 7. हसौद | .. | | | | |
| जिला-कोरबा | मिलीमीटर | | | | |
| 1. कोरबा | .. | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. भैसमा | .. | | 4. (1) फसल की हालत सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. करतला | .. | | (2) .. | | |
| 4. कटघोरा | .. | | | | |
| 5. दर्दी | .. | | | | |
| 6. पाली | .. | | | | |
| 7. हरदीबाजार | .. | | | | |
| 8. पोड़ीउपरोड़ा | .. | | | | |
| 9. पसान | .. | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--|----------|-------|--|------------------------------|--------------|
| जिला-सरगुजा | मिलीमीटर | | | | |
| 1. अम्बिकापुर | .. | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. दरिमा | .. | | 4. (1) धान, मक्का, उड़द, अरहर व अन्य फसल की हालत सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. लुण्डा | .. | | (2) उपरोक्त फसलें सामान्य हैं. | | |
| 4. सीतापुर | .. | | | | |
| 5. लखनपुर | .. | | | | |
| 6. उदयपुर | .. | | | | |
| 7. बतौली | .. | | | | |
| 8. मैनपाट | .. | | | | |
| जिला-सूरजपुर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. सूरजपुर | .. | 2. .. | 3. .. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. भैयाथान | .. | | 4. (1) धान, मक्का, अरहर, उड़द व मूंगफली फसल की हालत सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. रामानुजनगर | .. | | (2) उपरोक्त फसलें सामान्य हैं. | | |
| 4. प्रेमनगर | .. | | | | |
| 5. ओड़ुगी | .. | | | | |
| 6. लटोरी | .. | | | | |
| 7. प्रतापपुर | .. | | | | |
| 8. बिहारपुर | .. | | | | |
| 9. भटगांव | .. | | | | |
| जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज | मिलीमीटर | | | | |
| 1. बलरामपुर | .. | 2. .. | 3. .. | 5. अपर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. रामचन्द्रपुर | .. | | 4. (1) धान, मक्का, मूंगफली, उड़द व अरहर फसल की हालत सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. वाड्डफनगर | .. | | (2) उपरोक्त फसलें सामान्य हैं. | | |
| 4. राजपुर | .. | | | | |
| 5. शंकरगढ़ | .. | | | | |
| 6. कुसमी | .. | | | | |
| जिला-कोरिया-बैकुंठपुर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. बैकुंठपुर | .. | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. सोनहत | .. | | 4. (1) फसल की कटाई का कार्य जारी है धान, मक्का, कोदो-कुटकी, अरहर, उड़द, कुल्थी, मूंगफली, तिल, रामतिल, राई-सरसों व अन्य फसल की हालत सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. पटना | .. | | (2) उपरोक्त फसलें सामान्य हैं. | | |
| 4. पोड़ी-बचरा | .. | | | | |
| जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. मनेन्द्रगढ़ | .. | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. खड़गवां | .. | | 4. (1) धान, मक्का, अरहर, उड़द, कोदो-कुटकी, तिल, रामतिल, कुल्थी, राई व अन्य फसल की हालत सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. चिरमिरी | .. | | (2) उपरोक्त फसलें सामान्य हैं. | | |
| 4. केलहारी | .. | | | | |
| 5. भरतपुर | .. | | | | |
| 6. कोटाडोल | .. | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----------------------------------|----------|-------|---|---------------------------------|--------------|
| जिला-रायगढ़ | मिलीमीटर | | | | |
| 1. रायगढ़ | .. | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. पुसौर | .. | | 4. (1) धान, मूंगफली, मूंग, उड़द, तुअर, तिल, अम्बाड़ी, गन्ना व कुल्थी फसल की हालत सुधरी है. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. खरसिया | .. | | | | |
| 4. घरघोड़ा | .. | | | | |
| 5. तमनार | .. | | | | |
| 6. लैलूंगा | .. | | | | |
| 7. मुकडेगा | .. | | | | |
| 8. धरमजयगढ़ | .. | | | | |
| 9. छाल | .. | | | | |
| 10. कापू | .. | | | | |
| जिला-सारंगढ़- बिलाईगढ़ | मिलीमीटर | | | | |
| 1. सारंगढ़ | .. | 2. .. | 3. .. | 5. .. | 7. पर्याप्त. |
| 2. बरमकेला | .. | | 4. (1) .. (2) .. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. सरिया | .. | | | | |
| 4. बिलाईगढ़ | .. | | | | |
| 5. भटगांव | .. | | | | |
| जिला-जशपुर | मिलीमीटर | | | | |
| 1. जशपुर | .. | 2. .. | 3. .. | 5. पर्याप्त. | 7. पर्याप्त. |
| 2. मनोरा | .. | | 4. (1) धान, मूंगफली, तुअर फसल की हालत सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है. | 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. | 8. पर्याप्त. |
| 3. कुनकुरी | .. | | | | |
| 4. दुलदुला | .. | | | | |
| 5. फरसाबहार | .. | | | | |
| 6. बगीचा | .. | | | | |
| 7. कांसाबेल | .. | | | | |
| 8. पत्थलगांव | .. | | | | |
| 9. सन्ना | .. | | | | |

*टीप :- जिला दुर्ग से पत्रक अप्राप्त है.

पी. आर. प्रधान

उप-आयुक्त, (सां) वास्ते-संचालक,
भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, नवा रायपुर.